

## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 25.02.2023

### अवैध तमन्चा/कारतूस व चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना दिलीपपुर)-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थाना दिलीपपुर के उ०नि० श्री सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के बेलखर नाथ पुल के पास से 01 व्यक्ति मो० आदिल पुत्र शौकत अली नि० दहेरखुर्द थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी की एक अदद अपाचे मोटर साइकिल नम्बर यूपी 72 बीएच 6856, बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मोटर साइकिल उसने अडार से चोरी किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना रानीगंज में मु०अ०सं० 44/23 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दिलीपपुर में अभियुक्त मो० आदिल उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 38/23 धारा 411, 414 भादवि व 3/25 आम्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो० आदिल पुत्र शौकत अली नि० दहेरखुर्द थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

### बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
02. चोरी की 01 अदद अपाचे मोटर साइकिल जिस पर यूपी 72 बीएच 6856 नम्बर अंकित।

पुलिस टीम- उ०नि० श्री सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

## दुष्कर्म के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना हथिगवां)

जनपद के थाना हथिगवां के उ0नि0 श्री ओम प्रकाश सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 234/22 धारा 376, 511, 323, 506 भादवि व 4/18 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त विश्वनाथ यादव उर्फ श्याम यादव उर्फ गोलू पुत्र हरीकृष्ण यादव नि0 ग्राम बलीपुर मजरे मोहदीनगर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र हथिगवां के डीहा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।